

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 अगस्त 2022

प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस आतंकवादी संगठन का नेता अयमान अल-जवाहरी को अमेरिका ने हाल ही में ड्रोन हमले में मारे जाने की पुष्टि की है?

- A) LeT
- B) JeM
- C) ISIS
- D) अल-कायदा

सही उत्तर: D

अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में अल-कायदा का नेता अयमान अल-जवाहरी को मार गिराया है, राष्ट्रपति जो बिडेन ने पुष्टि की।

प्रश्न -2

निम्नलिखित में से कौन सा बैंक टैक्स इनफॉर्मेशन नेटवर्क (TIN) 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है?

- A) एक्सिस बैंक
- B) फेडरल बैंक
- C) HDFC बैंक
- D) ICICI बैंक

सही उत्तर: B

फेडरल बैंक आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 अगस्त 2022

प्रश्न -3

पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी ने हाल ही में _____ की आत्मकथा 'थू द रियर व्यू मिरर' का विमोचन किया था।

- A) के.आर.ए. नरसिया
- B) चित्रा रामकृष्ण
- C) अरुंधति भट्टाचार्य
- D) अमिताभ कुमार

सही उत्तर: A

लेखक और इतिहासकार के.आर.ए. नरसिया की आत्मकथा "थू द रियर व्यू मिरर" को हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था।

प्रश्न -4

निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की आतंकवाद विरोधी विशेष बैठक की मेजबानी करेगा?

- A) US
- B) रूस
- C) भारत
- D) फ्रांस

सही उत्तर: C

आतंकवाद के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए भारत 29 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की मेजबानी करेगा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 अगस्त 2022

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है?

- A) UP
- B) MP
- C) गुजरात
- D) बिहार

सही उत्तर: D

यूनेस्को ने बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है।

प्रश्न -6

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने हाल ही में कितनी रेपो दर बढ़ाई है?

- A) 6.90%
- B) 6.40%
- C) 5.90%
- D) 5.40%

सही उत्तर: D

गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत कर दिया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 अगस्त 2022

प्रश्न -7

केंद्र ने कैबिनेट सचिव _____ के कार्यकाल को एक साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया।

- A) अजय शर्मा
- B) नृपेंद्र मिश्रा
- C) प्रदीप कुमार सिन्हा
- D) राजीव गौबा

सही उत्तर: D

केंद्र ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया, जो इस पद पर दूसरा विस्तार है।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा-पावरलिफ्टिंग खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता?

- A) पुनीत
- B) राहुल
- C) सुधीर
- D) ताहिर

सही उत्तर: C

भारत के पैरा पावरलिफ्टिंग सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के पैरा-पावरलिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 अगस्त 2022

प्रश्न -9

मिथिलेश चतुर्वेदी का हाल ही में निधन हो गया। उसका पेशा क्या था?

- A) अभिनेता
- B) लेखक
- C) राजनेता
- D) सामाजिक कार्यकर्ता

सही उत्तर: A

कई फिल्मों और वेब सीरीज में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी का मुंबई में निधन हो गया है।

प्रश्न -10

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय बैडमिंटन मिश्रित टीम ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता?

- A) कांस्य
- B) स्वर्ण
- C) रजत
- D) उपरोक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर: C

राष्ट्रमंडल खेल 2022 के मिक्स्ट ग्रुप मैच में भारतीय बैडमिंटन टीम ने रजत पदक जीता।